

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार बतला सकती है कि जब इतना बड़ा रेलवे बोर्ड है और इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है तो यह कमेटी क्यों बनाई गयी है? यह कमेटी तो अपना काम बनाती रहेगी और मसले को पीछे धकेलती रहेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जब तक आप सरकुलर रेलवे नहीं दे रहे हैं तब तक के लिये उन लाखों लोगों की सवारी के लिए क्या इन्तिजाम कर रहे हैं जिनको उस के लिये घंटों इन्तिजार करना पड़ता है ?

श्री स० का० पाटिल : रेलवे बोर्ड है, मिनिस्ट्री है, और यह पार्लियामेंट उस से भी बड़ी है। फिर भी ये टेकनिकल चीजें तो किसी न किसी को देखनी पड़ती हैं।

Shri Priya Gupta: On a point of order. The Deputy Minister is giving a reply which is contradictory to the reply of the Minister. So, let them say which is correct. We are not able to understand. The House is being misled.

Shri S. N. Chaturvedi: The transport of Calcutta has been under investigation for a pretty long time, and several studies and investigations have been made previously too. May I know how the terms of reference of this committee will differ from those of the committees appointed earlier?

Shri Sham Nath: Those committees did not go into the transport problem taking into account the feasibility of undertaking other systems. So, this committee has been appointed with the sole purpose of suggesting whether overhead or circular or underground railway would be better.

Shri A. P. Sharma: Who are the members of this study team and how long will it take for them to submit their report? Is there any time limit laid down?

Shri Sham Nath: The members of this study team have not yet been appointed.

Shri M. L. Dwivedi: You said they had been appointed.

Shri Sham Nath: No, Sir, I did not say that.

Mr. Speaker: At least the impression had been created that the study team had been appointed.

Shri S. K. Patil: The responsibility is that of the Planning Commission because they have undertaken to do it.

Shri A. P. Sharma: The second part of the question was whether there was any time limit fixed.

Shri S. K. Patil: In the very nature of things, there cannot be a time-limit to such a thing, because it is an intricate problem, and we must not hustle them.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, हम नेपाल के बारडर से आते हैं। जब हमारे प्रधान मंत्री जी रेलवे मिनिस्टर से तब से हम से कहा जा रहा है कि हम को गोरखपुर, सहजनवा, महदावल, बांसी होते हुए गोंडा के लिए एक लाइन दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं दी गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चौथी योजना में हम को यह लाइन देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकम चन्द कल्लुबाय : क्या जो कलकत्ते जैसे और बड़े नगर हैं उन में भी सरकार इस प्रकार की रेलवे देने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब प्राया है।

Export of Textiles and Handicrafts to U.S.A.

+

\*545. { Shri Yashpal Singh:  
Shri R. S. Pandey:  
Shri D. C. Sharma:  
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether a two-man team of

the New York State Commerce Department visited India recently and stated that the U.S. market for Indian textiles and handicrafts had not been fully and adequately exploited;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps proposed to be taken in this direction?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy):** (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

#### STATEMENT

A two-man team of the New York State Commerce Department visited India in May, 1965 to acquaint some of the Ministers and officials of the Government of India with the working of the Division of International Commerce of New York State. In the course of their talks, they said that there were excellent opportunities in the U.S.A. for Indian fabrics, brassware and antiques, provided the goods are stylised and merchandised to suit the requirements of the American market.

2. Every effort is being made to increase the sale of Indian handicrafts in the U.S. markets. The Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India has been made responsible for developing our trade in handloom goods in non-traditional markets like the U.S.A. The Corporation has established an office in New York. It has launched an intensive publicity programme to promote the sale of handicrafts and "Bleeding Madras" fabrics in the United States.

3. All possible efforts are being made to increase our sales of textiles also. The U.S. Government has imposed restraints on the import of certain categories of cotton textiles from India; but constant efforts are being made to persuade the U.S. Government to relax the restraints. An

Indian Textile Delegation recently visited the United States for talks with the U.S. officials on the Indo-U.S. Textile Agreement. As a result, the U.S. Government has agreed to give India ten per cent additional inter-category flexibility in respect of some of the categories under restraint. Special efforts are also being made to increase the exports of categories which are not under restraint.

**श्री यशपाल सिंह :** इस स्टेटमेंट को कई दफा पढ़ा लेकिन यह पता नहीं चला कि इन लोगों के घाने से हमारा कितना निर्यात बढ़ा है और हम घाने लिए कितना अधिक फारिन एक्सचेंज प्राप्त कर सके हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** स्टेटमेंट में सारी बातें दी हुई हैं। जहां तक निर्यात का सवाल है पिछले तीन साढ़े तीन साल में हमारी सारी निर्यात 147 करोड़ से 185 करोड़ इस साल में हो गयी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ।

**श्री यशपाल सिंह :** क्या सरकार बतला सकती है कि इस में खादी प्रामोद्योग का कितना सहयोग है ?

**श्री मनुभाई शाह :** बड़ा सहयोग है, लेकिन जिस के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है वह खादी प्रामोद्योग में नहीं घाता है, वह हैडीक्राफ्ट में घाता है। सिल्क फॅब्रिक में घाता है और हैबलूम में घाता है।

**श्री राम सहाय पाण्डेय :** न्यूयार्क में मैंने घाने प्रतिष्ठान में देखा कि यहां के कपड़ों को विशेष रूप से छपे हुए पापलिन घादि को और हथकरघे के कपड़े को वहां ज्यादा पसन्द किया जाता है और वह प्रसिद्ध है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वहां अधिक को कम स्थापित किए जाएंगे ताकि वहां से चीजें बिक सकें और हम को अधिक फारिन एक्सचेंज मिल सके ?

**Shri Manubhai Shah:** As has been mentioned in the main answer, we have opened a trade centre called "Sona, the Gold". It is only 3½ months since we have opened this centre in New York, and it has already canvassed business of more than Rs. 2 crores in handloom, handicrafts and silk fabrics.

**Shri Basappa:** In view of the fact that bleeding Madras is in great demand in America may I know if sales have increased after the establishment of the office in New York and if so to what extent?

**Shri S. V. Ramaswamy:** Last year we exported Rs. 6 crores worth and this year it has already gone to Rs. 3 crores. It is likely to exceed the last year's figure.

**Shri D. C. Sharma:** They say they are going to specialise in the export of Indian fabrics and brassware antiques. May I know how they are going to collect these antiques and how they are going to give incentives to brass-smiths and to the fabric makers so that they can produce the right kind of thing which are to be used in the U.S. market?

**Shri S. V. Ramaswamy:** The handicrafts and handloom export Corporation is an expert body. They go round and study things; they know what is required in the various centres. They have made such arrangements so that they can get the necessary things from the collecting centres. They are exporting quite well. The export of handicrafts alone is to the tune of Rs. 3 crores.

**Shri D. C. Sharma:** I wanted to know what the Minister means by antiques. Are they taking out all our antiques?

**Shri Manubhai Shah:** The antiquities are governed by the Antiquities Act of India. Under the Ministry of Education there is a board which looks after that and declares that

certain antiquities will be allowed to be exported which are either surplus or of which there are many replicas available in India. What the hon. Member says is quite fully appreciated by our Ministry and we do not try to export any antiquities which are rare and which depict historical tendencies of our country.

**Shri P. K. Deo:** May I know if the India Stall in the New York World Fair has contributed in any way towards the export promotion of Indian textiles and handicrafts and if so to what extent?

**Shri Manubhai Shah:** In the U.S. market, unfortunately the position is that they have got what is called long-term textile agreement under which there is a quota restriction placed by the United States Government against the entry of textiles from many countries of the world including India, Pakistan, Japan and Hong Kong; we are restrained to the extent of 37½ million yards and we are now negotiating a new agreement to liberalise, if not scrap, it.

**Shri P. K. Deo:** My question was how far the India stall contributed to the promotion of our exports of textiles?

**Shri Manubhai Shah:** If there is quota restriction on our country how can we exceed it?

**Shri Warior:** Apart from bleeding Madras what other handloom stuff has gained better sales in New York according to the sales in the newly opened market depot?

**Shri S. V. Ramaswamy:** Bed sheets, pillow cases, etc. from U.P. and Punjab.

**Dr. L. M. Singhvi:** On what categories of textiles are these restrictions imposed and what is the measure of success obtained so far or expected to be obtained in either scrapping or relaxing this restraint?

**Shri Manubhai Shah:** We have made our views thoroughly known to the U.S. Government and they fully appreciate the need for foreign exchange for the under-developed countries. We hope that the long-term textile agreement which has the restraining clause will be altogether removed or at least liberalised. I cannot anticipate what will be the outcome of it. We are doing at the highest possible level.

**Dr. L. M. Singhvi:** What are the categories restricted?

**Shri Manubhai Shah:** The categories are many; if the hon. Member is interested in those details, I will give them; they are long cloth, poplin, etc. It is not necessary to go into that now.

**श्री भागवत झा आजाद :** इस विवरण में बताया गया है कि न्यूयार्क स्टेट कामर्स डिपार्टमेंट ने दो सदस्यों की एक टीम भारत-भ्रमण के लिए भेजी थी और इस बात के लिये अपनी व्यग्रता बताई कि वे भारतीय सूती वस्त्रों का वहां पर आयात करना चाहते हैं, लेकिन वही पर यह भी बताया गया है कि अमरीकी सरकार ने बहुत बर्षों से भारतीय सूती वस्त्रों की कुछ किस्मों पर रोक लगा रखी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में उस से जो बातचीत कर रहे हैं, वह किस स्थिति पर है, इस रोक लगाने का क्या कारण है और इस के कब तक हटाए जाने की सम्भावना है।

**श्री शम्भूभाई शाह :** अगर माननीय सदस्य प्रश्न को देखें, तो उन को मालूम होगा कि यह टीम कोई मिल-मेड काटन टेक्सटाइल के लिए नहीं आई थी। हैडमेट प्रोडक्ट्स, हैडीक्राफ्ट्स, हैडलूम के लिए कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं है।

**Shri Sham Lal Saraf:** With the recent rising tempo of exports in textiles and of handicrafts in the third Plan

and the impending fourth Plan, may I know what steps are afoot to ensure its continuity including the getting of all the contracts especially with the U.S.A. revised?

**Shri Manubhai Shah:** The hon. Member had done us the honour of being a member of the committee on exports of handicrafts for their development in the fourth Five Year Plan. That report is under the consideration of the Ministry of Social Security which looks after the handicrafts and our Ministry helps them to export those products. I hope those recommendations will be implemented as early as possible.

**Shri Muthiah:** May I know whether there are any accumulations of handloom goods in Madras?

**Shri S. V. Ramaswamy:** In respect of "bleeding Madras," there are no accumulations at all.

**Shri P. Venkatasubbalah:** In view of the fact that our handicrafts are being popularised in the United States of America, may I know whether any financial help is being given in respect of such of those handicraft industries which are popular, for example, the handicraft industry in Hyderabad, and, if so, to what extent?

**Shri Manubhai Shah:** That question may perhaps be put to the Minister of Social Security, but I can say that considerable assistance is being given both by the States and the Central Government for the production and development of handicrafts.

**श्री म० ला० द्विवेदी :** सदन-पटल पर जो विवरण रखा गया है, उस में बताया गया है

"As a result, the U.S. Government has agreed to give India ten per cent additional inter-category flexibility in respect of some of the categories under restraint."

में यह जानना चाहता हूँ कि ये कौन कौन सी कॅटेगरीज हैं और क्या सरकार इस रेस्ट्रिक्ट को हटाने के लिए कोई प्रयत्न कर रही है।

**Shri Manubhai Shah:** It is a long list; I have already mentioned some of them. If the hon. Member is interested, I can pass on those categories to him.

**श्री क० ना० तिवारी :** चूँकि छोटी छोटी पार्टियां यहां से हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, इस लिये वे उन के स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेनटेन नहीं कर सकती हैं और उन के स्टैंडर्ड और क्वालिटी अच्छे नहीं रहते हैं। इस कारण भी यू० एस० ए० में हमारा मार्केट खराब रहता है। तो क्या गवर्नमेंट इस बात को सांच रही है कि कोई ऐसा धारगनाइजेशन बनाया जाये, जिस से हैंडीक्राफ्ट्स के स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेनटेन किया जा सके और सब को एक जगह प्ल किया जा सके ?

**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य का मवाल सही है। एक बड़ी दिक्कत यह है कि छोटे छोटे घरों में जो हमारा माल बनता है, उस को कैसे स्टैंडर्डईज किया जाये। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि प्री-शिपिंग इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल जितना हो सके, उतना किया जाये। उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार ने पिछले चार सालों से 'क्यू' मार्क की स्कीम लागू की है, जो काफ़ी सफलता के साथ चल रही है। पंजाब में भी "क्यू" मार्क चलने वाला है, जिस के अनुसार सारे हैंडीक्राफ्ट्स पर इंस्पेक्शन करने के बाद "क्यू" मार्क लगाया जायेगा। हम बहुत से धोर स्टैप्स भी ले रहे हैं, ताकि यह इम्प्रूवमेंट होती रहे।

**श्री सरजू पाण्डेय :** मंत्री महोदय ने बताया कि मद्रास के अतिरिक्त य०पी०

और पंजाब से हैडलूम के कपड़े अमरीका को जाते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किन भागों के कपड़े वहां पसन्द किये जाते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अगर हम हर एक जिले और गांव में जायेंगे, तो बहुत मुश्किल होगी।

**श्री मनुभाई शाह :** हर एक गांव और जिले का नाम कैसे बताया जा सकता है। सारी दुनिया जानती है कि कहां से हैडलूम के कपड़े बाहर भेजे जाते हैं। माननीय सदस्य की कांस्टीट्यूएन्सी भी उस में शामिल है।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपने म्यान के बारे में पूछें।

**श्री सरजू पाण्डेय :** आजम डिस्ट्रिक्ट में मऊ।

**श्री मनुभाई शाह :** वे जगह हैं बनारस, मुरादाबाद, लखनऊ, गाजीपुर, अलीगढ़।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय आजमगढ़ का नाम भी बता दें।

**श्री मनुभाई शाह :** आजमगढ़ भी है।

**श्री बृजराज सिंह :** बड़ी मुश्किल से यह नाम निकलवा पाये हैं।

#### Fig Iron Plant near Rourkela

- +
- Shri M. R. Krishna:**  
**Shri Rameshwar Tantia:**  
**Shrimati Tarkeshwari**  
**Sinha:**
- \*546.** { **Shri Heda:**  
**Shri Ram Sewak:**  
**Shri P. G. Sen:**  
**Shri Mohammed Koya:**  
**Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an